


**:केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क के आयुक्त का कार्यालय:
:टाऊन सेंटर : सिडको : औरंगाबाद 431 030:**

**व्यापार सूचना नं. 17/2008
(अ.क.15/GEN./2008 दिनांक 18.11.2008)**

**विषय : Allowance of maximum permissible error on net
quantity by weight declared in packages of cement. ,**

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2008 की फा.सं.224/39/04-CX-6 के तहत जारी पत्र की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं कार्यवाही के लिये प्राप्त करें /

सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र/पत्र की जानकारी अपने सभी सदस्य निर्माताओं और व्यापारियों को दें /


(अरुण साहू),
आयुक्त

फा.सं. VGN(30) 07/TC /2008 /3242
औरंगाबाद, दिनांक 18.11.2008

प्रतिलिपि प्रेषितः डाक सूची के अनुसार

- उप/सहायक आयुक्त सभी मंडल प्रभारी तथा आय.सी.डी.
- सभी अनुभाग प्रमुख मुख्यालय
- मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क नागपुर
- आयुक्त के उत्पाद तथा सी.शुल्क (अपील), औरंगाबाद

No. 224/39/04-CX-6
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise & Customs

Circular No. 876/14/2008-CX

CHIEF COMMISSIONER
CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
NAGPUR
Pl. sent under to
04 NOV 2008
4892
INITIAL
October 20, 2008

New Delhi dated the

To

All Chief Commissioners of Central Excise & Customs
All Commissioners of Central Excise & Customs
All Commissioners of Central Excise (Appeals)
The Director General of Inspection for Customs and Central Excise

ADC (A)
K/M

Subject:- Allowance of maximum permissible error on net quantity by weight declared in packages of cement.

Representations were received from the trade and industry for permitting allowance of maximum permissible error on net quantity by weight declared in packages of cement. These representations were received consequent to issuance of show cause notices by the field formations to cement manufacturers, based on the sample weighment that is done as per BIS requirements.

2. The matter has been examined. As per Standard of Weights and Measures (Packaged Commodity) Rules, 1977, cement is required to be packed in bags containing 50 Kgs. Generally, bagging in cement factories is done by automatic filling machines, adjusted to pack 50 Kg. in a bag. However, some times, the actual quantity filled in a bag may be little more or less than 50 Kg. due to the inherent nature of product and the quality of machines. Due to these reasons, the Standard of Weights and Measures (Packaged Commodity) Rules, 1977 provides for 1% variation (excess or short) for cement bags of 50 Kgs. Therefore, it has been decided that same practice of variation (1%) should be allowed for cement filled in bags for the purpose of levy of central excise duty. Pending disputes, if any, may also be decided accordingly.

4. Trade & field formations may please be informed suitably.
5. Receipt of the Circular may be acknowledged.
6. Hindi version will follow.

(Rahul Nangar)

Under Secretary to the Government of India


Copy to:

1. PPS to Chairman CBEC and All Members, CBEC
2. All Directorates-General/Directorates under CBEC
3. All sections under CBEC

1889
11/11/08

340
11-11-08

Supdt
11/11/08



OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS
Post Box No. 81, Telenkhedi Road, Civil lines, Nagpur.

C.No.IV16)30-95/CCU/NZ/2008

7676

Nagpur dated 05/10/2008

Copy forwarded to the Commissioner, Central Excise, Customs and Service Tax,
Nagpur / Nasik / Aurangabad for information and necessary action please.

Yours faithfully,

Superintendent
Chief Commissioner Unit,
Nagpur.